

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं  
अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय  
रीवा म.प्र.  
निविदा



2022-2023

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के न्यूरोसर्जरी विभाग हेतु उपकरण (Percutaneous Endoscopic Lumbar Discectomy) के स्थानीय क्रय हेतु ई-निविदा

**(लोकल पर्चेस)**

(प्रथम आमंत्रण)

निविदा क्रमांक- 53/2022-23

**SUPERINTENDENT**  
Super Speciality Hospital  
Rewa (M.P.)

कीमत रु. 5000/-

## ONLINE TENDER SCHEDULE

ई-निविदा क्र- 53/2022-23

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	07.03.2022 11.00 AM	25.03.2022 05.00 PM	
2	BID SUBMISSION ONLINE	07.03.2022 11.00 AM	25.03.2022 05.00 PM	
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	28.03.2022 12.35 PM	-	
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	-	

ईमेल-: [jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com](mailto:jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com), Fax-07662-242104

संपर्क-: 07662-242104, 9179705483, 9644695933, 7747078415, 9630518109


पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:-

1. धरोहर राशि रूपये 30000.00 (रु. तीस हजार) ऑनलाईन जमा की रसीद।
2. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) सभी पृष्ठ
3. फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन।
4. वित्तीय वर्ष, 2018-19 एवं 19-20 (एसेसमेंट ईयर 19-20 एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
5. 100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र
6. पैन कार्ड
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 20.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2020-21)
8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।
9. जीवित ड्रग लाइसेंस।
10. अधिकृत डीलर को निर्माता कंपनी द्वारा जारी अद्यतन अर्थराईजेशन पत्र की प्रति।
11. ISO/IEC/USFDA / CE सर्टिफाईड कंपनी का प्रमाण पत्र।

  
3/3/22

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के न्यूरोसर्जरी विभाग हेतु उपकरण (पी.ई.एल.डी.)के स्थानीय कय (लोकल पर्वेस) (प्रथम आमंत्रण)  
ई-निविदा फार्म नियम एवं शर्तें

1. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक के न्यूरोसर्जरी विभाग हेतु उपकरण (पी.ई.एल.डी.) के स्थानीय कय (लोकल पर्वेस) (प्रथम आमंत्रण) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://mptenders.gov.in/> पर आनलाईन भुगतान कर कय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। ऑनलाईन निविदा फार्म कय करने का मूल्य रु. 2000.00 निर्धारित हैं यह राशी वापस योग्य नहीं है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 30000.00 (रु. तीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राइस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एवं स्पेसिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन कय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर अपलोड करना होगा।
7. चिकित्सालय की भण्डार क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को कारण बताकर अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
9. सफल निविदाकार को उपकरण हेतु तीन वर्ष की Comprehensive Warranty मुख्य मशीन एवं उससे जुड़ी अन्य एसेसरीज हेतु उपलब्ध करानी होगी, इस संबंध में क्रय आदेश के मूल्य की 10 प्रतिशत राशी बैंक गारंटी के रूप में उपलब्ध करानी होगी यह बैंक गारंटी टेण्डर हेतु जमा अमानत राशि से पृथक होगी
10. सफल निविदाकार को क्रय के उपरान्त क्रय किये गये उपकरणों की सर्विस उपलब्ध कराई गई जगह पर ही करनी होगी (सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, रीवा) ,सर्विस संबंधित सभी टैक्नीशियन एवं इंजीनियर की समुचि जानकारी जैसे पते, फोन नम्बर, फ़ैक्स नम्बर ,ई-मेल इत्यादि उपलब्ध करानी होगी।
11. उपकरण के खराब होने की स्थिति में 72 घंटे या उससे कम के भीतर सर्विस इंजीनियर को उपलब्ध कराना होगा। अगर 72 घंटे से अधिक समय सर्विस हेतु लगाया जाता है तो 2000 रूपये प्रतिदिन का जुर्माना निविदाकार की अमानत राशि से काट लिया जायेगा।

  
Head  
Department of Neurosurgery  
Super Sp

12. निविदाकार द्वारा पूर्व में किये गये किसी भी शासकीय अस्पताल अथवा अर्धशासकीय/स्वशासी अस्पताल में किये गये सफल विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसे सत्यापित किया जा सके। (अगर उपलब्ध हो तो।)
13. निविदा केवल निर्माता कंपनी अथवा उनके अधिकृत डीलर द्वारा ही भरी जाए।
14. सामग्री विलम्ब या आधी अधूरी प्रदाय करने की स्थिति में द्वितीय निविदाकार (एल-02) से क्रय कर जो राशी का अंतर होगा वह प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति या देयक से काटा जावेगा।
15. प्रदाय करते हुये इस बात का ध्यान रखा जावे की उपकरण सामग्री उच्च क्वालिटी (CE/USFDA/ISO/IEC) जो कि टेन्डर प्रपत्र में विवरण एवं आवश्यक सुरक्षा जानकारी के साथ अंकित है की ही दी जावे।
16. अनुबंध करने के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आदेश निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को रहेगा तथा कार्यादेश अन्य संस्था, द्वितीय निविदाकार (एल-02) को दिया जा सकेगा इस कारण होने वाली वित्तीय हानि को भी राजकीय हानि मानते हुये निरस्त निविदाकर्ता से वसूली की जावेगी।
17. किसी भी विवाद, व्यवधान अथवा लागू नियम व शर्तों को समझने में दुविधा की स्थिति में मित्रवत शालीन व्यवहार करते हुये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से उनके कार्यालय में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करना होगा चर्चा उपरांत पहुंचे समाधान को निविदाकार को मान्य करना होगा।
18. निविदा के साथ दुकान का वैध ड्रग लाइसेंस तथा आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की छायाप्रति लगानी होगी। वार्षिक टर्न ओवर वर्ष 2020-21 बीस लाख (20 LAKH) से कम नहीं होना चाहिये इसके लिये सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।(अधिकृत विक्रेता हेतु लागू)
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकि.महा. रीवा के पास किसी भी निविदा को ग्राह्य करने अथवा नहीं करने तथा साथ ही जनहित में निविदा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. निविदाकार को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें मंजूर करनी होगी, जिन्हें पालन करने के लिये वह वैधानिक रूप से बाध्य है।
21. इस निविदा में स्वीकृत दरों से केवल उन्ही उपकरण का कय किया जावेगा जिनकी दरें एम.पी.एच.एच.सी.एल की सूची में उपलब्ध नहीं हैं अथवा उनके द्वारा समय से प्रदायगी नहीं की जा रही है अथवा स्थानीय स्तर पर अनुबंधित फर्मों द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही है और मरीजों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक है।
22. प्रदायकर्ता फर्म को प्रदाय की गई उपकरण सामग्री की एन.ए.बी.एल. /इनहाउस रिपोर्ट प्रदायगी के साथ उपलब्ध करानी होगी।
23. जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होगी उन्हे प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
24. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

Head  
Department of Neurosurgery  
Super Speciality Block  
S. M. C. Rewa (M.P.)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक  
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

**तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र:- बी**

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावे। पृष्ठ क. दर्शायें			
		हां	नहीं	हां	नहीं
1.	धरोहर राशि रूपये 30000 ऑनलाईन जमा की रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।				
3.	फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन।				
4.	वित्तीय वर्ष, 18-19,19-20 एवं 20-21 (एसेसमेंट ईयर 19-20 एवं 20-21) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
5.	100 रु. के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र				
6.	पैन कार्ड				
7.	वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु. 20 लाख वर्ष 2019-20)				
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन।				
9.	जीवित ड्रग लाइसेंस।(अधिकृत डीलर हेतु )				
10.	अधिकृत डीलर को निर्माता कंपनी द्वारा जारी अद्यतन अर्थराइजेशन पत्र की प्रति।				
11.	ISO/IEC / CE /USFDA सर्टिफिकेट की प्रति।				
12.	एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रेशन (वैकल्पिक)				

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम .....

(स्पष्ट अक्षरों)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील .....

बैंक का नाम, खाता क. एवं आई.एफ.एस.कोड.....

Head  
Department of Neurosurgery  
Super Speciality Block  
S S M. C. Rev...

## घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये )

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई./लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जाचं लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
8. केंद्र/राज्य सरकार कोई भी कर मेरी संस्था/मेरे उपर बकाया नहीं है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर


निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.....  
नाम.....  
पता.....

संस्था के समक्ष अधिकारी का  
पता.....

2. गवाह का नाम.....  
.....  
पता .....

संस्था का नाम एवं पता.....

  
Head  
Dena  
Department of Neurosurgery  
Super Speciality Block  
S.S.M.C. Rewa (M.P.)

अनुसूची क्रमांक 01

S.No	Item name with specification	Quantity
1.	Endoscopic access system for minimally invasive Transforaminal and interlaminar syatem with Rf and hige speed shaver system	1 set
2.	Transforaminal Scope (25°) with letral ocular lens working channel and irrigation channel.	1 set
3.	Interlaminar Scope (25°) with letral ocular lens working channel and irrigation channel.	1 set
4.	Dilator 1-3 mm and 6.9 mm	1 set
5.	Working sleeve for detachable irrigation adapter distal end beveled graduated.	1 set
6.	Punch sleeve 7 & 8 mm	1 set
7.	Hammer	1 set
8.	Grasping Forceps 3 mm reusable with irrigation connection	1 set
9.	Grasping Forceps 2.5 mm reusable rigid curved upward	1 set
10.	Cutter 2.6 WL 360 mm reusable with irrigation connection	1 set
11.	Cutter 2.5 mm rigid curved upward reusable with irrigation connection	1 set
12.	Grasping Forceps for interlaminar 3 mm with irrigation connection	1 set
13.	Cutter for interlaminar 3 mm reusable with irrigation connection	1 set
14.	Sheath tube punch Dismantling tube sheath 4 mm with reusable with irrigation connection	1 set
15.	Dissector 2.5 mm reusable	1 set
16.	Exploring probe with Flexible Tip Consisting of 2.5 mm with spring handle	1 set
17.	Face miller 4 mm sharp reusable	1 set
18.	Traphine 6.9 mm WL 210 mm sharp reusable	1 set
19.	Spinal Needle set 18 G (OD 1.25 mm) pack + 10 PCS Sterile	1 set
20.	Sieve for sterilization consisiting of sieve basket base sieve basket lid.	1 set
21.	Radiofrequency Surgical Ablation System 4-4.2 MHZ frequency for effective Monopolar/ Bipolar Application. <b>Technical Spesification:-</b> 1- RF system should have Monopolar & amp; Bipolar mode of r versatile usage in spine surgery, there should. 2- have 2 monopolar cutting modes & amp; 2 Monopolar coagulation modes for pprecise cutting& amp; coagulation. 3- Monopolar function should control through footswitch or hand controlled RF probe & amp Bipolar RF instruments.	1 set
22.	For interlaminar Tip control 2.5 mm for endoscopic spine surgery , Flexible insert.	1 set
23.	For Transformainal 2.5 mm for endoscopic spine surgery , Flexible insert.	1 set
24.	Shaver System- to remore the bones Endoscopically, motor unit deivce control and adjustment for all functions.	1 set
25.		
26.	Foot switch, Two paddle for main adjustments	1 set
27.	Shaver handpiece, <b>Technical Spesification:-</b> Motrized hand piece for arthroscopic oprations incl., Range of speed must be uto 16000 rpm. Rotable shaver blades and burrs within the hand piece. Wide range of reusable and disposable shaver blades.	1 set
28.	Burr 4 mm Oval with lateral protection	1 set
29.	Burr 4 mm Round without protection	1 set